एक दिन वो भोले भंडारी | BY Rajender Jain

एक दिन वो भोले भंडारी बनकर के ब्रिज नारी गोकुल में आ गए हैं पारवती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं

पार्वती से बोलै मैं भी चलूँगा संग में राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में रास रचेगा ब्रिज में भारी मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं

ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हे साथ में मोहन के सेवा वहां कोई पुरुष ना जाए साथ में हंसी करेंगी ब्रिज की नारी मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं

ऐसे बना दो मुझे जाने ना कोई इस राज़ को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिज राज को लगाके बिंदी पहन के साड़ी चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं

हंस के सखी ने कहा बिलहारी जाऊं इस रूप में इक दिन तुम्हारे लिए आये मुरारी इस रूप में मोहिनी रूप बनके मुरारी अब ये तुम्हारी बारी गोकुल में आ गए हैं

देखा मोहन ने समझ गए वो सब बात रे ऐसी बंसी बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे सर से खिसक गयी जब साडी तो मुस्काये गिरधारी भोले शर्मा गए हैं

दीनदयालु तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे ओ भोले बाबा तेरा वृन्दावन में बना धाम रे ताराचंद कहे ओ त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी शरण में आ गए हैं......

 $\frac{\text{https://bhaktivandana.com/lyrics/\%e0\%a4\%8f\%e0\%a4\%95-\%e0\%a4\%a6\%e0\%a4\%bf\%e0\%a4\%a8-\%e0\%a4\%b5}{\%e0\%a5\%8b-\%e0\%a4\%ad\%e0\%a5\%8b\%e0\%a4\%b2\%e0\%a5\%87-}$